

फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.

राष्ट्रीय महिला आयोग

\*\*\*

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र

नई दिल्ली-110025,

तारीख: 18 दिसंबर, 2017

**विषय: आयोग की 180वीं बैठक का कार्यवृत्त - के संबंध में**

तारीख 14 दिसंबर, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 180वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक में और आयोग के समक्ष रखी गई कार्यसूची मदों के संबंध में किए गए विनिश्चय के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र आयोग के समक्ष आगामी बैठक में रखा जाए।

संलग्न: यथा उपरोक्त

(आर.सी.आहूजा)

अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य (सुषमा साहू) के निजी सचिव
3. सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
4. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
6. अवर सचिव(आर.सी.)/अवर सचिव(पी.के.)/वेतन और लेखा अधिकारी
7. परामर्शदाता (शिकायत और अन्वेषण)
8. वरिष्ठ समन्वयक (श्रीमती कंचन खट्टर/श्रीमती लीलाबती)
9. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी
10. परामर्शदाता (रा.भा.), को इस अनुरोध के साथ कि कार्यवृत्त का अनुवाद प्रस्तुत करें।
11. ज्येष्ठ प्रोग्रामर/प्रशासन लोकल सर्वर में इसे अपलोड करने के लिए



## राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 14 दिसंबर, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 180वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. सुश्री रेखा शर्मा | अध्यक्ष (प्रभारी) |
| 2. श्री आलोक रावत    | सदस्य             |
| 3. सुश्री सुषमा साहू | सदस्य             |
| 4. डा. सतबीर बेदी    | सदस्य-सचिव        |

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. श्री कुन्दल लाल शर्मा  | संयुक्त सचिव         |
| 2. श्री आर.सी. आहूजा      | अवर सचिव             |
| 3. सुश्री प्रीति कुमार    | अवर सचिव             |
| 4. श्री राजेश कुमार आहूजा | वेतन और लेखा अधिकारी |

आरंभ में सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

**कार्यसूची मद सं. 1:**

**तारीख 23 दिसंबर, 2017 को आयोजित आयोग की 179वीं बैठक का कार्यवृत्त।**

आयोग द्वारा तारीख 23 नवंबर, 2017 को आयोजित आयोग की 179वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई। यह विनिश्चय किया गया कि यद्यपि, स्कैन किए गए दस्तावेजों के आधार पर देश भर में प्रतियोगिता की दशा में संदाय उन्मोचित किया जा सकता है, विश्वविद्यालयों को मूल प्रतियां प्रेषित करने के लिए भी एक ई.मेल भेजी जाए।

**(कार्रवाई: विधिक प्रकोष्ठ)**

## कार्यसूची मद सं. 2:

### संविदा के आधार पर विशेष रिपोर्टों की नियुक्ति

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया।

(कार्रवाई: प्रशासन अनुभाग)

## कार्यसूची मद सं. 3:

### महिला कैदियों की दशा का पुनर्विलोकन करने के लिए कारागारों का निरीक्षण

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया। यह विनिश्चय किया गया कि यदि प्रोफार्मा में कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो अगले दो दिन के भीतर संयुक्त सचिव को सूचित किया जा सकता है और इसके पश्चात् रा.म.आ. की वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया जाए और यथासंभव शीघ्र केन्द्रीय कारागारों का निरीक्षण आरंभ किया जाए।

(कार्रवाई: विधिक प्रकोष्ठ)

## कार्यसूची मद सं. 4:

### मनश्चिकित्सीय गृहों का निरीक्षण

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया। इस विषय पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श किया गया और यह विनिश्चय किया गया कि निरीक्षण के लिए प्रोफार्मा को यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए और संसाधन व्यक्तियों की पहचान करने के संबंध में कार्यवाही की जाए। आयोग ने विनिश्चय किया कि इस कार्यक्रम का समस्त रूप से स्वामित्व आयोग के पास रहेगा।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

## कार्यसूची मद सं. 5:

### तारीख 31 जनवरी, 2018 को होने वाले समारोह की तैयारी

सदस्य-सचिव ने तारीख 31 जनवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किए जाने वाले समारोह के संबंध में अब तक किए गए क्रियाकलापों के बारे में ब्यौरेवार आयोग को जानकारी दी।

आयोग ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए सदस्य-सचिव द्वारा अब तक किए गए प्रयासों के लिए सराहना अभिलिखित की। सदस्य-सचिव द्वारा यह अनुरोध किया गया कि माननीय सदस्य और अध्यक्ष (आई/सी) भी अपने लेखों से भी सहयोग कर सकते हैं और समारोह के लिए आमंत्रितगणों के ब्यौरे भी प्रदान करें।

**(कार्रवाई: सी.सी. प्रकोष्ठ)**

अध्यक्ष को और उनकी ओर से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करके बैठक समाप्त की गई।

( डा. सतबीर बेदी )  
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

( रेखा शर्मा )  
अध्यक्ष, रा.म.आ.